



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239251
CG-DL-E-30092022-239251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671]
No. 671]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सं. 31/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 753(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2022, जिसे सा.का.नि. 90(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

I. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(i) स्तम्भ (3) में क्र.सं. 2 के सामने, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाता है, अर्थात् :-

“परन्तु, 1 नवंबर, 2022 से प्रभावी, इस क्र. सं. में अंतर्विष्ट कोई बात मोटर स्पिरिट जिसे साधारणतया पेट्रोल के रूप में जाना जाता है, जो उपभोक्ताओं को फुटकर विक्रय के लिए आशयित है, एथेनॉल या मेथनॉल के साथ इतना मिश्रित नहीं है कि मिश्रित मोटर स्पिरिट के लिए समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हो।” ;

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 को संख्यांक सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 16/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 2022 द्वारा अंतिमवार संशोधित की गई थी, जो सा.का.नि. 579(अ), तारीख 15 जुलाई, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

No. 31/2022 -Central Excise

G.S.R. 753(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2022-Central Excise, dated 1st February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 90(E), dated the 1st February, 2022, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

I. in the Table, -

(i) against Sl. No. 2, in column (3), after item (ii), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that, with effect from the 1st day of November, 2022, nothing contained in this Sl. No. shall apply to motor spirit, commonly known as petrol, which is intended for retail sale to consumers, not so blended with ethanol or methanol as conforming to Bureau of Indian Standards specifications from time to time for blended motor spirit.”;

(ii) after Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“2A.	2710	Motor spirit commonly known as petrol which is intended for retail sale, not so blended with ethanol or methanol as conforming to Bureau of Indian Standards specifications from time to time for blended motor spirit- (i) without a brand name; (ii) with a brand name.	Rs. 3.40 per litre Rs. 4.60 per litre”;
------	------	--	---

(iii) against Sl. No. 3, in column (3), after item (ii), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that, with effect from the 1st day of April, 2023, nothing contained in this Sl. No. shall apply to High Speed Diesel (HSD), which is intended for retail sale to consumers, not so blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils, commonly known as bio-diesels as conforming to Bureau of Indian Standards specifications from time-to-time for blended diesel.”;

- (iv) after Sl. No. 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“3A.	27101930	High speed diesel (HSD) intended for retail sale, not so blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils, commonly known as bio-diesels as conforming to Bureau of Indian Standards specifications from time-to-time for blended diesel - (i) without a brand name; (ii) with a brand name.	Rs. 3.80 per litre Rs. 6.20 per litre”;
------	----------	---	---

- II. After the Table, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that nothing contained in this notification shall apply to-

(a) the goods specified against serial number 2A of the Table above before the 1st day of November, 2022;

(b) the goods specified against serial number 3A of the Table above before the 1st day of April, 2023”.

[F. No. 190354/295/2021-TRU]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No.16/2022-Central Excise, dated the 15th July, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 579 (E), dated the 15th July, 2022.